

DHABRIYA POLYWOOD LIMITED

Regd. Office : B-9D(1), Malviya Industrial Area, JAIPUR-302 017 (Raj.) INDIA Phone : +91-141-4057171, 4040101-105 | Fax: +91-141-2750814

E-mail : info@polywood.org | Website : www.polywood.org

CIN: L29305RJ1992PLC007003

Ref: BSE/2022-23/28

Date: 09.09.2022

To,
The General Manager
Department of Corporate Service
BSE Limited,
P.J. Towers, Dalal Street, Fort,
Mumbai – 400 001

Scrip Code - 538715

Dear Sir/Madam,

<u>Sub: - Newspaper Advertisement - Disclosure under Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations")</u>

Pursuant to Regulation 30 read with Schedule III Part A of SEBI Listing Regulations, we enclose electronic copies of newspaper advertisement published in Indian Express (English), and Business Remedies (Hindi), regarding e-voting information for 30th Annual General Meeting of the Company, in compliance with section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 44 of SEBI Listing Regulations.

Kindly disseminate the information on the official website of the exchange for the information of all members of the exchange and investors.

Thanking you,

FOR DHABRIYA POLYWOOD LIMITED

Sparsh Jain Company Secretary & Compliance Officer M. No. A36383





Chiplun Municipal Council Government of Maharashtra Notice for Tender Biogas Project of 5 Ton capacity

CHIPLUN Municipal Council, Government of Maharashtra, invites proposal from reputed and experienced companies to participate in the competitive bidding process for Biogas Project of 5 ton capacity at land No. 168/4/2 under Swachh Bharat Mission (Urban). For detailed tender documents, interested bidder should visit <a href="https://www.mahatenders.gov.in/tenders.gov.i Tender submission would be online and the deadline to submit the proposal is 29.09.2022. Date: 08.09.2022

> Sd/-Chief Officer Chiplun Municipal Council Government of Maharashtra

A THREADS (INDIA) LIMITED

Regd. off.: Unit: Modern Woollens, Pragati Path, Near Transport Nagar, Bhilwara-311001 (Rajasthan) India Tel: +91-1482-241801, Fax: 297924, CIN: L17115RJ1980PLC002075

E-mail: cs@modernwoollens.com, Website: www.modernwoollens.com NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING AND BOOK CLOSURE

. Notice is hereby given that 41stAnnual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Friday the 30stSeptember, 2022 at 2.00 P.M. at the Registered Office of the Company at Modern Woollens, Hamirgarh Road, Pragati Path, Near Transport Nagar, Bhilwara 311001 (Rajasthan) to transact the business as set out in the Notice of AGM. In line with the MCA circulars, the Annual Report/ Notice of Annual General Meeting for the year ended 31st March, 2022 is being sent only by electronic mode to all those Members who have registered their email IDs with the Company/ Depository Participant(s)/Registrar & Share Transfer Agent. The Annual Report of the Company for the FY 2021-22 along with Notice of AGM and e-voting instructions will also be available on the Company's website at www.modernwoollens.com, BSE Limited website at www.bseindia.com, NSE website at www.nseindia.com and also on the website of NSDL at www.inig.and.com, NSE website at www.nseindia.com and also on the website of NSDL at www.inig.and.com, NSE website at www.nseindia.com and also on the website of NSDL at www.inig.and.com, NSE website at www.nseindia.com and also on the website of NSDL at www.inig.and.com, NSE website at www.nseindia.com and also on the website of NSDL. at www.evoting.nsdl.com. Notice of AGM has been sent through e-mail on 8th September

Notice is also hereby given that pursuant to the provisions of Section 91(1) of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from 24th September, 2022 to 30th September, 2022 (both days inclusive).

Pursuant to the provisions of section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 o The Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide its members the facility to exercise their right to tote by electronic means on all resolutions set forth in the notice of AGM. The members may cast their votes using an electronic voting system from a place other than the venue of the meeting ("remote e-voting"). For this purpose, the Company has signed an agreement with National Securities Depository Limited (NSDL) as the agency for facilitating remote e-voting. The facility for voting through poll papers shall be made available at the AGM who have not cast their vote(s) by remote e-voting. The remote e-voting period commences from 27°September, 2022 at 9.00 A.M. and ends on 29°September, 2022 at 5.00 P.M. The remote e-voting module shall be disabled for evoting after 5.00 P.M. on 29°September, 2022 and remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time.

A member may participate in the AGM even after exercising his/her right to vote through

remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting. NSDL/RTA will send the "User Id" and "Password for e-voting" to members on their registered email address. The members who have not provided email IDs to the Depository Participants/Company and any person, who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after dispatch of the notice of the AGM and holding shares as on the cut-off-data is 2.3" Separations of 2022 may obtain the "User ID" and "Password for avoiting". date i.e. 23rdSeptember, 2022 may obtain the 'User ID' and "Password for e-voting" b sending a request at cs@modernwoollens.com or contact on 91-1482-241801.

For any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting user manual for members available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free No. 1800-1020-990and 1800 22 44 30 or send a equest at evoting@nsdl.co.in

By order of the Board For Modern Threads (India) Limited (Rajesh Ranka) Place: Bhilwar Chairman & Managing Directo Date: 08.09.2022 (DIN: 03438721)

DEMAND NOTICE Whereas Asset Reconstruction Company (India) Ltd. (hereinafter referred to as "Arcil") is an Asset Reconstruction company incorporated under the Companies Act, 1956 and registered with the Reserve Bank of India under

ection 3 of Securitization and Reconstruction of Financial Assets and inforcement of Security Interest Act, 2002 (hereinafter referred to as "the Act") and Whereas the Borrowers/Mortgagors/ Guarantors/ Co-obligants & Consentors as mentioned in Column No.2 of the below-mentioned chart obtained Loan from various banks and Whereas **Arcil** has acquired the financial assets relating to the Valous ballis and Wheleas Alchi has adulted in limitated assets leading to the Loan Account mentioned in Column No.1 of the below-mentioned chart; and Whereas Arcil, being the secured creditor under the Act, and in exercise of powers conferred under S. 13 (2) of the said Act read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued demand notices calling upon the Borrowers/Co-Borrowers/Guarantors/Mortgagors/Co-obligants & Consentors, as mentioned in Column No.2 to repay the amount mentioned in the notices with fur her interest thereon within 60 days from the date of Notice, but the Notices coul not be served upon some of them for various reasons

SI. No.	Name of Borrowers/Mortgagors/Guarantors/ Co-obligants & Consentors / Loan Account No.	Total Outstanding in Rs./Due date	Date of 13(2 Notice
	Ashok Kumar Vaishnav / Geeta Devi Vaishnav / NHKIS00001265329 / NHKIS00001265388 / ICICI Home Finance Company Ltd.		02-Aug-22
	scription of Immovable Properties/Secured A		

Madanganj, Kishangarh, Rajasthan-305801 Area Admeasuring 136.11 Sq.Yard in the Name of Ashok Kumar S/o Vishnu Prashad.

ш	_			
		Babu Lal Soni / Norti Devi / NHBKR00000835336 / NHBKR00000835337 / ICICI Home Finance Company Ltd.	Rs.25,18,897.61 as on 27-07-2022	02-Aug-22
	Des	scription of Immovable Properties/Secured Ass	ets: Property situat	ed at Khasra
ш	NI_	146 to 150 Kighmodogar Bikanar Bajaethan 22/	INNA Aroa Admona	uring 120 01

Sq.Yard or 1168.5 Sq.Feet in the Name of **Babu Lal Soni.** 3 Chautha Mal Gurjar / Vadhuvati / Rs.9,59,973.91

NHKIS00000839815 / ICICI Home Finance 27-07-2022 Company Ltd. Description of Immovable Properties/Secured Assets: Property situated at Shan

Purana Shaher Kishangarh, Rajasthan-305801area Admeasuring I The Name of Vadhuvati, W/o Chautha Mal Gurjar. Chautha Mal Gurjar / Vadhuvati NHKIS00000823607 / NHKIS00000823609 / Rs.9,03,386.53

02-Aug-22 ICICI Home Finance Company Ltd. Description of Immovable Properties/Secured Assets: Property situated at Shan Mandir Ki Gali, Purana Shaher Kishangarh, Rajasthan-305801 area Admeasuring Ir

The Name of Vadhuvati, W/o Chautha Mal Gurjar. Ganpat Lal Malviya Lohar / Basanti Devi / Rs.38.63.821.01 LHPLI00001273790 / NHPLI00001253165 / LHPLI00001253161 / ICICI Home Finance Company Ltd.

Description of Immovable Properties/Secured Assets: Property bearing Plot No. 1529, Khasra No-1568, Mahalaxmi Nagar, Pali, Rajasthan-306401 Area Admeasuring 1000 Sq.Feet in the name of Ganpat Lal Malviya Lohar. 6 Murli Dhar Sharma / Kuldeep Sharma / Rs.37,68,759.88 NHPLI00001272709 / ICICI Home Finance as on

as on 28-07-2022 Company Ltd. Description of Immovable Properties/Secured Assets: Poperty bearing H.No.76 Himmat Nagar, Pali, Rajsathan-306401 Area Measuring 266.66 Sq.Yards or 2400

Sq.Feets in the Name of Murlidhar Sharma, S/o Devi Lal 7 Om Prakash Sharma / Sulekha / Rs.25,30,022.21 NHBNI00000960138 / ICICI Home Finance

28-07-2022 Company Ltd. Description of Immovable Properties/Secured Assets: Property bearing Pl No.16, Khasra No.1040, Shree Ram Colony, Village-Devpura Bundi, Rajasth 323301 Area Admeasuring 1050 Sq.Feets in the Name of Om Prakash Sharma

8 Pushpendra Singh Rathore / Madhu Kanwar / Rs.13.08.227.79 NHAJM00001252564 / ICICI Home Finance 28-07-2022 Company Ltd. Description of Immovable Properties/Secured Assets: Property of Pushpend

Singh Rathore, Berwa Basti, Pushkar Road, Kotra, Ajmer, Rajasthan-305001 Area Admeasuring 1192.95 Sq.Feet in the name of Pushpendra Singh Rathore

28-07-2022 ICICI Home Finance Company Ltd Description of Immovable Properties/Secured Assets: Property bearing House No.420, Kothari Para Kile Ke Upar, Jaisalmer, Rajasthan-345001 Area Admeasuring

Notice is, therefore, given to the Borrowers/Mortgagors/ Guarantors/Co-obligants & Consentors, as mentioned in Column No.2, calling upon them to make payment on the aggregate amount as shown in Column No.3 against the respective Borrowers Co-Borrowers/ Guarantors, Co-obligants and Consentors within 60 days of publica tion of this Notice, as the said amount is found payable in relation to the respective. Loan Account as on the date shown in Column No.4. It is made clear that if the aggregate amount together with further interest and other amounts, which ma ecome payable till the date of payment, is not paid, Arcil shall be constrained t take appropriate action for enforcement of security interest upon properties as described above. Steps are also being taken for service of notice in other manners as prescribed under the Act and the Rules made thereunder.

Sd/- Authorised Officer

Asset Reconstruction Company (India) Ltd.

Place: Rajasthan

ASSET RECONSTRUCTION COMPANY (INDIA) LTD. Registered Office: The Ruby, 10th Floor, 29 Senapati Bapat Marg Dadar (West), Mumbai-400028. Tel: +91 2266581300. www.arcil.co.ir Branch Address: Unit No. 1008, 11th Floor, Westend Mall, Janakpur District Centre, New Delhi-110058. Tel:- 011-41775206. CIN-U65999MH2002PLC134884

ADITYA BIRLA HOUSING FINANCE LIMITED

Registered Office- Indian Rayon Compound, Veraval, Gujarat - 362266 Branch Office- G Corporation Tech Park, Kasarvadavali, Ghodbunder Road, Thane -400607 (MH

Date of

Amount due as per

Demand Notice /as on Da

Rs. 58,80,372.48/-

(Rupees Fifty Eight Lakh

Eighty Thousand Three

Hundred Seventy Two an Forty Eight Paise Only) b

way of outstanding princi

pal, arrears (including

accrued late charges) an interest till 19.08.2022

DEMAND NOTICE

(under Rule 3 (1) of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002)
SUBSTITUTED SERVICE OF NOTICE U/s.13 (2) of SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND
ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002.

Notice is hereby given to the borrowers as mentioned below that since they have defaulted in repayment of the Credit facility availe by them from Aditya Birla Housing Finance Limited (ABHFL), their loan accounts have been classified as Non-Performing Assets in the books of the Company as per RBI quidelines thereto. Thereafter, ABHFL has issued demand notices under section 13(2) of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (SARFAESI Ac on the last known addresses of the said borrowers thereby calling upon and demanding from them to repay the entire outstandin amount together with further interest at thecontractual rate on the aforesaid amount and incidental expenses, cost, charges etc. a stated in the said demand notices. However, the demand notice is also being served by way of publication, as per Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 (SARFAESI Rules):

SI. No	Name and Address Borrower/ Co-Borrower and Guarantor / Co-Guarantor & Loan A/C No.	NPA Date	Date of Demand Notice	
1	1. LALIT PARIHAR Plot No. 93, Khasra No. 292/7, Aashapurna Enclave,	11.05.2022	30.08.2022	ı
	Village Pal, Jodhpur 342001 2. SHOBHA PARIHAR Plot No. 93, Khasra			ı
	No. 292/7, Aashapurna Enclave, Village Pal, Jodhpur 342001 3. M/S			ı
	GANESHAM BUILDERS AND DEVELOPERS Plot No. 93, Khasra No.			ı
	292/7, Aashapurna Enclave, Village Pal, Jodhpur 342001 4. LALIT			ı
	PARIHAR Bapu Coloni New Kohinoor Ke Samne, Jodhpur, Rajasthan			ı
	342001 5. SHOBHA PARIHAR Bapu Coloni New Kohinoor Ke Samne,			ı
	Jodhpur, Rajasthan 342001 6.M/S GANESHAM BUILDERS AND			ı
	DEVELOPERS Opp Baldev Nagar Near Akhaliya Circle Chopsani Road			
	Jodhpur, Rajasthan 342001			ı

Loan Account No. LNJODHL_-07170034089 DESCRIPTION OF IMMOVABLE PROPERTY)PROPERTIES MORTGAGED: All That Piece And Parcel Of Plot No. 93, Area Measuring 3300 Sq. Ft., I.E., 366.66 Sq. Yards, Aashapurna Enclave, Khasra No. 292/7, Gram-Pal, Jodhpur And Bounded: East: 40 Ft. Road, West: Plot No. 122, North: Plot No. 94, South: 60 Ft. Road Measurement: North: 50 Feet, South: 60 Feet, East: 55 Feet, West: 55 Feet.

limited to taking possession of and selling the secured asset entirely at your risk as to the cost and consequences.

Please note that as per section 13(13) of the SARFAESI Act, all of you are prohibited from transferring by way of sale, lease orotherwise, the afort said secured assets without prior written consent of the Company. Any contravention of the said section by you shall invoke the penal provisions a laid down under section 29 of the SARFAESI Act and / or any other legal provision in this regard.

Please note that as per sub-section (8) of section 13 of the Act, if the dues of ABHFL together with all costs, charges and expenses incurred to ABHFL are tendered to ABHFL at any time before the date fixed for sale or transfer, the secured asset shall not be sold or transferred by ABHFL are tendered to ABHFL at any time before the date fixed for sale or transfer, the secured asset shall not be sold or transferred by ABHFL are tendered to ABHFL at any time before the date fixed for sale or transfer, the secured asset shall not be sold or transferred by ABHFL are tendered to ABHFL at any time before the date fixed for sale or transfer, the secured asset shall not be sold or transferred by ABHFL are tendered to ABHFL at any time before the date fixed for sale or transfer, the secured asset shall not be sold or transferred by ABHFL are tendered to ABHFL at any time before the date fixed for sale or transfer, the secured asset shall not be sold or transferred by ABHFL are tendered to ABHFL at any time before the date fixed for sale or transfer, the secured asset shall not be sold or transferred by ABHFL are tendered to ABHFL at any time before the date fixed for sale or transfer, the secured asset shall not be sold or transferred by ABHFL are tendered to ABHFL at any time before the date fixed for sale or transferred by ABHFL are tendered to ABHFL at any time before the date fixed for sale or transferred by ABHFL are tendered to ABHFL at any time before the date fixed for sale or transferred by ABHFL are tendered to ABHFL at any time before the date fixed for sale or transferred by ABHFL are the date fixed for sale or transferred by ABHFL are the date fixed for sale or transferred by ABHFL are the date fixed for sale or transferred by ABHFL are the date fixed for sale or transferred by ABHFL are the date fixed for sale or transferred by ABHFL are the date fixed for sale or transferred by ABHFL are the date fixed for sale or transferred by ABHFL are the date fixed for sale or transferred by ABHFL are the date fixed

and no further step shall be taken by ABHFL or transfer or sale of that secured asset. Sd/- Authorised Office (Aditya Birla Housing Finance Limited Place: JODHPUR

C + N + R + M

Corporate & Registered Office : Unit No. 801, Centrum House, CST Road, Vidyanagri Marg, Kalina Santacruz (East), Mumbai - 400098, CIN No. U65922MH2016PLC273826

POSSESSION NOTICE

(As per Appendix IV read with rule 8(1) of the Security Interest Enforcement Rules, 2002) Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of Centrum Housing Finance Ltd under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 and in exercise of powers conferred unde section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, Demand Notice(s) issued by the Authorise Officer of the company to the Borrower(s) / Guarantor(s) mentioned herein below to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower(s) / Co-Borrower(s) / Guarantor(s) and the public in general that the undersigned has taken Possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said rules. The borrower in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings vith the property will be subject to the charge of Centrum Housing Finance Ltd for an amount as mentioned herein under with interest thereon.

The Borrower's attention is invited to provisions of sub section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to

Sr. No.		Description of secured assets (immovable property)	Date of Demand Notice & Total Outstanding Dues (Rs.)	Possession Taken Date
1	Ganapati Devi W/O Mr. Ram Jiwan / Ram Jiwan S/o Mr. Ghevar Ram / JAIBK19003433 & JAIBK19003675/ Jaipur	In The Rights, Piece And Parcel Of Immovable Property - Plot No 57 A Situated At Khasara No. 46 & 49, Shubham Colony, Ward No 6, Near Sufiya College, Nagaur (Rajasthan) 341001 Boundaries: East: Bhookhand No 72 A, West: Rasta 30', North: Bhookhand No56, South: Bhookhand No58	Rs. 858426/- (Rupees Eight Lac Fifty Eight Thousand	07.09.2022
2	Bablu / Shanti Devi & Om Prakash / JAING20004985/ Jaipur	In The Rights, Piece And Parcel Of Immovable Property - P No. 153, Khasra No. 233/777, Sanjay Colony, Near Shree Ram Mandir, Nagaur- 341001. Rajasthan. Boundaries:- East- Road, West- P No. 82, North- P No. 154, South- P No. 152		07.09.2022

Sd/ Place : Rajasthar **Authorised Officer** Date: 09.09.2022 For Centrum Housing Finance Ltd

FEDBANK FINANCIAL SERVICES LTD.

Having corporate office at Kanakia Wall Street, A-Wing, 5th Floor, Unit No.501, 502, 511, 512 Andheri - Kurla Road, Chakala, Andheri East, Mumbai, Maharshtra - 400093 Demand Notice under Section 13(2) of the SARFEASI Act, 2002

The below mentioned borrower and co-borrower (collectively referred to as "borrowers") mortgaged their immovable property (securities) to Fedbank Financial Services Limited (hereinafter referred to as "Fedfina") and avail the loan. The said loan is classified a non-performing asset on 06/04/2022 because you have failed to re pay that amount. In this connection Fedfina had issued a Demand Notice on 26/08/2022 under Section 13 (2) of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 to the addressee. The details are published here as an alternative service under Section 13 (2) and Rule 3 (1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002. You are requested to repay the amount mentioned in the Demand Notice and the accompanying interest within 60 days of the publication of this notice. In case of failure to do so, the signatory shall take such appropriate action under section 13 (4) and 14 of the Act on the said property to safe guard the interest of the Fedfina

Details of loan number, borrowers, demand notice send under section 13 (2), amount requested and details of immovable proper

LAN No	Borrower/ Co-Borrower/ Mortgagor Names	Demand Notice Date	Amount
FEDJPROHL0480610	Ramawatar Choudhary (Borrower) Add - 82, Deshwalo Ki Dhani, Devaliya Pos: Thikariya Th- Sanganer Dist, Jaipur 302026 Add – Ajmer Road, Aekbell Bagru, Jaipur-302026 Mamta Choudhary (Co-Borrower & Mortgagor) Add - 82, Deshwalo Ki Dhani, Devaliya Pos: Thikariya Th- Sanganer Dist, Jaipur 302026	26/08/2022	Rs.50,34,673 As on 12/08/2022

Description of Property (Particulars of the immovable property mortgaged to FFSL)

All that right, title and interest of Patta No. 4651, Missal No. 87-95/96, situated at Gram Panchayat, Devliya, Panchayat Sammiti Sanganer, District Jaipur, Rajasthan, admeasuring 528 sq. yrds

West: Rasta 12 Ft. wide

North: House of Mr. Kana Ram. Mr. Laxman & Mr. Rameshwar Jat South: House of Mr. Nathu & Mr. Pratp Jat

The said Borrowers are prohibited under Section 13 (13) from transferring the asset/property, whether by lease, sale or otherwise without the prior written consent of Fedfina. Any person contravenes the provisions the said act shall be liable for punishment as pecified in the said Act.

DATE: 08.09.2022

AUTHORISED OFFICER

DHABRIYA POLYWOOD LIMITED

Regd. Office: B-9 D (1), Malviya Industrial Area, Jaipur-302017 Rajasthan, India Telephone No.: 0141-4057171, Fax No.: 0141-2750814

E-mail: cs@polywood.org, Website: www.polywood.org | CIN: L29305RJ1992PLC007003

otice is hereby given that the thirtieth (30th) Annual General Meeting ("AGM") of the members of Dhabriya Polywood Limite "Company") will be held on Friday, 30th September, 2022 at 11:00 A.M. through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Mean "OAVM") facility to transact the ordinary business as set out in the notice of 30th AGM, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 reac with General Circular Nos. 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 19/2021, 21/2021 and 2/2022 dated 08th April 2020, 13th April 2020 05th May 2020, 13th January 2021, 08th December 2021, 14th December 2021 and 05th May 2022 respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circular(s)") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated 15th January 2021 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated 13th May 2022 issued by the Securities Exchange Board of India ("SEBI Circular"), without he physical presence of the Members at a common ven

The electronic copies of the Notice of the 30th AGM, Annual Report for the **F.Y. 2021-22** including the Audited Financial Statement for the $in ancial year ended on {\tt 31st\,March\,2022}\ have been sent to all the members whose e-mail IDs are registered with the Company/Depositor of the company o$ Participant(s). The dispatch of Notice of the AGM and the Annual Report for FY 2021-22 has been completed on 08th September 2022. The above documents are also available on the Company's website i.e. www.polywood.org, website of the BSE Limited i.e <u>www.bseindia.com</u> and website of the Central Depository Services (India) Limited i.e. <u>www.evotingindia.com</u>.

n compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act. 2013, read with Rule 20 of the Companies (Management and nistration) Rules, 2014, as amended and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, the Company is offering remote e-voting facility for its Members enabling them to cast their vote electronically in respect of the usiness to be transacted at the AGMof the Company. The Company has appointed Central Depository Services (India) Limited (CDSL) to provide e-voting facility.

The remote e-voting will commence from 09:00 A.M. on Tuesday, September 27, 2022, and ends on 05:00 P.M. on Thursday, Septembe 29, 2022. The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time. The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is September 23, 2022. The detailed instructions for remote e-voting process are mentioned at Note No 19 of the Notice of AGM.

 $The Members \ who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also participate in the AGM through VC/OAVM facility but the AGM may also participate in the AGM through VC/OAVM facility but the AGM may also participate in the AGM through VC/OAVM facility but the AGM may also participate in the AGM through VC/OAVM facility but the AGM may also participate in the AGM through VC/OAVM facility but the AGM may also participate in the AGM through VC/OAVM facility but the AGM may also participate in the AGM through VC/OAVM facility but the AGM may also participate in the AGM through VC/OAVM facility but the AGM may also participate in the AGM through VC/OAVM facility but the AGM may also participate in the AGM through VC/OAVM facility but the AGM may also participate in the AGM through VC/OAVM facility but the AGM may also participate in th$ hall not be entitled to cast their vote again Any person who has acquired the shares and has become a member of the Company after the dispatch of the Notice of the AGM and prior to

he Cut-off date, shall be entitled to exercise his/her vote either electronically i.e. remote e-voting or e-voting system on the date of the AGM by following the process mentioned in the Notice of the AGM. n case of any queries, members may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available a

www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 1800 22 55 33 or Contact Mr. Sparsh Jain, Company Secretary of the Company at B-9D(1), Malviya Industrial Area, Jaipur - 302017 (Raj.), Tel: 0141-4057171 and Pursuant to section 91 of the Companies Act, 2013 and the applicable rules thereunder and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligation

nd Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company wil rom Saturday, September 24, 2022 to Friday, September 30, 2022. (both days inclusive).

CS Manish Sancheti, Practicing Company Secretary, (FCS 7972, CP 8997) has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting in a air and transparent manner. The results of the remote e-voting and e-voting at the AGM will be declared on or before Saturday, 01st October 2022. The Results declared, along with the Scrutinizer's Report, shall be placed on the Company's website a www.polywood.org and on the website of CDSL i.e. www.evotingindia.com for information of the Members besides being commun to the Stock Exchange i.e. BSE Limited where the Company's shares are listed. For Dhabriya Polywood Limite

Date: 09.09.2022 Sparsh Jain Place : Jaipur **Company Secretary** भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India

Branch: Retail Assets Central Processing Center (RACPC)-Kota BSNL Customer Care Center Building 3-ह-9, Jhalawar Road, Vigyan Nagar, Kota (Raj.)-324005 Ph.: 0744-2360124, E-mail : sbi.31872@sbi.co.in

APPENDIX-IV [SEE RULE 8 (1) **POSSESSION NOTICE (FOR IMMOVABLE PROPERTIES)**

The undersigned being the Authorised officer of the State Bank of India under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets & Enforcement Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(2) read with Rule 8(1) of the security Interest (enforcement) rules 2002, issue: demand notice on the date mentioned against each account calling upon the respective borrower's to repay the amount as mentioned against each account within 60 days from the date of notice date of receipts of the said notice. The Borrower's having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower's not the public in general that the authorized officers named herein have taken possession the property described herein below in exercise of powers conferred on him under section 13 (4) of the said act read with Rule 8(1) of the said Rule on the date mentioned against each account. The borrower's in particulars and the public in general is hereby cautioned not to deal with the properties and any dealing will be subject to the State Bank of India for the **DESCRIPTION OF IMMOVABLE PROPERTIES**

	DESCRIPTION OF INVINIOVABLE FROI ENTIES					
Sr.	Name of the	Name of Borrower/	Description of the	Date of Demand	Outstanding	Date of
No.	Branch	Mortgagor / Guarantor	Property Mortgaged	Notice & Amount	Amount as on	Possession
		- 0 0	1 , 00			
1.	RACPC	Borrower/Guarantor :	All that part and parcel of the Land & Building of	20.06.2022	03.09.2022	03.09.2022
	Kota	1. Shri Upendra S/o	property consisting situated at Flat No. B-3, 903,	Rs.	Rs.	
		Shri Dashrath Singh	Mahalaxmi Enclave, Nava Nohra, Baran Road, Kota	13.75.140/-	13,53,081/-	
	2. Smt. Deepshikha W/o		(Rai.) in the name of Shri Upendra S/o Shri Dashrath	(Interest	(Interest	
		Shri Upendra Singh	Singh & Smt. Deepshikha W/o Shri Upendra Singh.	included up to	included up to	
		Address : Flat No. B-3,	Bounded by : East : Flat No. B-3, 904, West : Open	20.06.2022)	02.09.2022)	
		903, Mahalaxmi Enclave,	Space, North: Open Space, South: Common Road,	20.06.2022)	02.03.2022)	
		Naya Nohra, Baran Road,				
		Kota (Raj.)-324001	Flat No. B-3, 905			
2.	RACPC	Borrower/Guarantor :	All that part and parcel of the Land & Building of property	14.06.2022	03.09.2022	03.09.2022
	Kota	Shri Jaggu Ram S/o	consisting situated at Plot No. 1086, Subhash Nagar	Rs.	Rs.	
		Shri Ram Dayal Regar	Scheme, Kota (Raj.) in the name of Shri Jaggu Ram	4,65,190/-	4,46,011/-	
		Address: 1086,	S/o Shri Ram Dayal Regar.	(Interest	(Interest	
		Subhash Nagar,	Bounded by: East: Plot No. 1085, West: Plot No. 1087.	included up to	included up to	
		Kota-324005	North: Other Plot, South: 9 Meter Wide Road	14.06.2022)	02.09.2022)	
D - 4 -	- 00 00 0000	Diama Kata		A - 4111	Off Ot - t - E	Sanda a Charles

PUBLIC NOTICE

Branch Office: ICICI Bank Ltd, 3rd Floor, Plot No- 23, New Rohtak Road Warol Bagh, Delhi- 110005

The following borrower/s have defaulted in the repayment of principal and interest of the loans facility obtained by them from the Bank and the loans have been classified as Non-Performing Assets (NPA). A notice was issued to them under Section 13 (2) of Securitisation and Re-construction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act-2002 on their last known addresses, however it was not served and

Hei	erice triey are riereby notined by way of tris public notice.							
Sr. No.	Name of the Borrower/ Co-Borrower/ Guarantor/ (Loan Account Number) & Address	Property Address of Secured Asset / Asset to be Enforced	Date of Notice Sent/ Outsta- nding as on Date of Notice	NPA Date				
1.	Ganga Jamuna Chemicals, Manish Mittal, Dhiraj Mittal, Savita Agarwal, H-117 Industrial Estate, Behind New Power House Jodhpur Rajasthan, A/c No:- 016705501242 & 016755000002	C-174, Shastri Nagar, Jodhpur, Rajasthan	25/07/2022 Rs. 3,97,70,983.64/- Rs.46,27,799.06/-	13/06/ 2022				
2.	Power Solar, Kune Singh, Kuldeep Singh Gehlot, Anusuya Kachhwaha, Anusuya Kachhwaha, Dharmendra Pawar, Shalini Dharmendra Pawar, 301, 2nd Floor, Sheetal Complex Behind Safi Circle, Petrol Pump Bombay Motor, Jodhpur Rajasthan, A/c No:- 016705012790 & 016705012881	Plot No. 17, Sector-a, Rajbagh, Jodhpur Rajasthan, Plot No. 17, Soorsagar, Jodhpur Rajasthan & Plot No 41, Mangal Vihar, Bhadasiya, Jodhpur Rajasthan	22/07/2022 Rs. 1,66,59,080.67/- Rs. 1,05,55,688/-	26/05/ 2022				

The steps are being taken for substituted service of notice. The above borrower/s and/or their guarantors (as applicable) are advised to make the payments of outstanding within period of 60 days from the date of publication of this notice else further steps will be taken as per the provisions of Securitisation and Re-construction of

Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002. Date: September 09, 2022 Authorized Officer

SYMBOLIC POSSESSION NOTICE

Branch Office: ICICI Bank Ltd, 3rd Floor, Plot No- 23, New Rohtak Road,

OICICI Bank

The undersigned being the Authorized Officer of ICICI Bank Limited under the Securitisation, Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of the powers conferred under section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) rules 2002, issued demand notices upon the borrowers mentioned below, to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of receipt of the said notice.

As the borrower failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken Symbolic possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/ her under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said rules on the below mentioned dates. The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of ICICI Bank Limited

Sr. No.	_ /.	Description of Property/ Date of Symbolic Possession	Date of Demand Notice/ Amount in Demand Notice (Rs.)	Name of Branch	
1.	M/s Wasim Tyres/ Mahfooz Ali Moyal/ Saraju Deen Moyal/ Basiram Bano/ A/c No. 088205003085/ 088255000032/ 088260000004/ 088260000007	Commercial Property Shop At Ghosiyo Ka Mohalla Merta City Nagaur Rajasthan - 341510/ September 06, 2022	June 16, 2021/ Rs. 69,68,704/-	Merta City	
2.	M/s Moyal Traders/ Saraju Deen Moyal/ Mahfooz Ali Moyal/ Samim Bano/ A/c No. 088205003089/ 088255000031/ 088260000005/ 088260000008	Commercial Property Shop At Ghosiyo Ka Mohalla Merta City Nagaur Rajasthan - 341510/ September 06, 2022	June 16, 2021/ Rs. 65,50,413/-	Merta City	

The above-mentioned borrowers(s)/ guarantors(s) are hereby given a 30 day notice to repay the amount, else the mortgaged properties will be sold on the expiry of 30 days from the date of publication of this Notice, as per the provisions under the Rules 8 and 9 of Security Interest (Enforcement) Rules 2002

Authorized Officer Date: September 09, 2022 Place: Merta City **ICICI Bank Limited**

FEDBANK FINANCIAL SERVICES LTD. Having corporate office at Kanakia Wall Street, A-Wing, 5th Floor, Unit No.501, 502, 511, 512 Andheri - Kurla Road, Chakala, Andheri East, Mumbai, Maharshtra - 400093

The below mentioned borrower and co-borrower (collectively referred to as "borrowers") mortgaged their immovable property (securities) to Fedbank Financial Services Limited (hereinafter referred to as "Fedfina") and avail the loan. The said loan is classified as non-performing asset on 06/03/2022 because you have failed to re pay that amount. In this connection Fedfina had issued a Demand Notice on 26/08/2022 under Section 13 (2) of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 to the addressee. The details are published here as an alternative service under Section 13 (2) and Rule 3 (1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002. You are requested to repay the amount mentioned in the Demand Notice and the accompanying interest within 60 days of the publication of this notice. In case of failure to do so, the signatory shall take such appropriate ction 13 (4) and 14 of the Action the said property to safe guard the interest of the Fe

Demand Notice under Section 13(2) of the SARFEASI Act, 2002

Details of loan number, borrowers, demand notice send under section 13 (2), amount requested and details of immovable property

LAN I	No	Borrower/ Co-Borrower/ Mortgagor Names	Demand Notice Date	Amount
&	IIMSTL0484168	Mr. Yajuvendrasinh Pratapsinh Rathod (Borrower) Add 1- At Po Vijaynagar, District Sabarkantha, Himatnagar 383001 Mrs. Hetalben Yajuvendrasinh Rathod (Co-Borrower & Mortgagor) Add 1- At Po Vijaynagar, District Sabarkantha, Himatnagar 383001	06/03/2022	Rs.28,85,475 & Rs.5,50,515 As on 25/08/2022

Description of Property (Particulars of the immovable property mortgaged to FFSL)

All that right, title and interest of Property at Southern portion of the Plot no.153, Kharsa No. 311/3, Vijay Singh Pathik Nagar, Kalwar Road, Jhotwara, Jaipur, Rajasthan; admeasuring 166.66 sq yrds;

That the said plot is bounded as under;

By East :- Plot no. 150 By West :- Road 30Ft. Wide By North :- Plot no. 153 By South :- Plot no. 154

PLACE: Rajasthan

The said Borrowers are prohibited under Section 13 (13) from transferring the asset/property, whether by lease, sale or otherw without the prior written consent of Fedfina. Any person contravenes the provisions the said act shall be liable for punishment specified in the said Act.

PUBLIC NOTICE

AUTHORISED OFFICER

Fedbank Financial Services Ltd

Ranch Office: ICICI Bank Ltd, 3rd Floor, Plot No- 23, New Rohtak Road, Karol Bagh, Delhi- 110005

The following borrower/s have defaulted in the repayment of principal and interest of the loans facility obtained by them from the Bank and the loans have been classified as Non-Performing Assets (NPA). A notice was issued to them under Section 13 (2) of Securitisation and Re-construction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act-2002 on their last known addresses, however it was not served and hence they are hereby notified by way of this public notice.

Name of the Borrower/ Co-Borrower/ Guarantor/ (Loan Account Asset to be Enforced Number) & Address		Date of Notice Sent/ Outsta- nding as on Date of Notice	NPA Date
A & G Enterprises Abdul Gaffar & Ashok Kumar Choudhary, Geeta Devi, Sahika Parveen, Near Obc Bank Lanka Gate Sicor Road Bundi Rajasthan, A/c No:-685905601608 & 685955015018	Plot No. I-j-9, Vikas Nagar, Bundi- 323001	28/07/2022 Rs.81,60,544/- Rs.7,45,889.63/-	16-05- 2022
G S Udhyog, Ashwani Bagpatia, Mamta Devi Bagpatiya, New Mandi Bharatpur, Bharatpur Rajasthan, A/c No:-685705600195	Plot No.18E, Nai Mandi, Bharatpur Rajasthan	30/07/2022 Rs. 25,47,360.7/-	03/01/ 2022
Hind Traders, Mamta Dhoka, Amta Dhoka, Ashish Dhoka, Lalit Kumar Dhoka 8 Indra Colony Bani Park, Jaipur Rajasthan A/c No:- 674605500961 & 674655015028	Plot No- D-806, Flat No. 301, Malviya Nagar Jaipur Rajasthan	30/07/2022 Rs.41,18,705/- Rs.7,17,476.69/-	05/04/ 2022
Kota Vastralaya, Mohammed Zishan, Waseem Kadari, Mehfooz Alam, Abdul Azeez, Bheru Gali, Rampura Bazar, Kota, Rajasthan Kota, Rajasthan A/c No:- 688305112529	Plot No. K-71, Behind CWC, Indra Prastha Steel Yard, Road No. 1, Kota, Rajasthan	30/07/2022 Rs. 29,07,567.39/-	30/04/ 2022
M/s Sri Balaji Agency, Veena Devi, Sandeep Laroiya, Shop No. 82, Old Dhan Mandi Raisinghnagar Sriganganagar Rajasthan, A/c No:- 175005003146	Murabba No. 26, Kila No. 3/2, Raisingh Nagar, Sri Ganganagar Rajasthan	29/07/2022 Rs. 13,00,826/-	30/05/ 2022
Midha Tea Traders, Ajay Pal Midha, Sudesh Rani, Gur Mandi Hanumangarh Town Hanumangarh Rajasthan, A/c No:- 045505000242	Plot No.37, 38B, Chak No.16, Pathar No.133/274, Kin No.19, 20, Hanumangarh Rajasthan	30/07/2022 Rs. 26,46,157/-	09/03/ 2022
Shree Radhey Fashion, Beena Pareek, Anil Kumar Pareek, 105, Rajeev Nagar, Vidhyadhar Nagar, Jaipur Rajasthan, A/c No:- 065005501667 & 065005004232 & 065055000057	Property No-3/257/15, Naya Kheda Sector No.3, Vidhyadhar Nagar, Jaipur, Rajasthan	30/07/2022 Rs.37,78,670/- Rs.21,64,641/- Rs.3,37,859/-	26/05/ 2022
	Co-Borrower/ Guarantor/ (Loan Account Number) & Address A & G Enterprises Abdul Gaffar & Ashok Kumar Choudhary, Geeta Devi, Sahika Parveen, Near Obc Bank Lanka Gate Sicor Road Bundi Rajasthan, A/c No:-685905601608 & 685955015018 G S Udhyog, Ashwani Bagpatia, Mamta Devi Bagpatiya, New Mandi Bharatpur, Bharatpur Rajasthan, A/c No:-685705600195 Hind Traders, Mamta Dhoka, Amta Dhoka, Ashish Dhoka, Lalit Kumar Dhoka 8 Indra Colony Bani Park, Jaipur Rajasthan A/c No:-674605500961 & 674655015028 Kota Vastralaya, Mohammed Zishan, Waseem Kadari, Mehfooz Alam, Abdul Azeez, Bheru Gali, Rampura Bazar, Kota, Rajasthan Kota, Rajasthan A/c No:-688305112529 M/s Sri Balaji Agency, Veena Devi, Sandeep Laroiya, Shop No. 82, Old Dhan Mandi Raisinghnagar Sriganganagar Rajasthan, A/c No:-175005003146 Midha Tea Traders, Ajay Pal Midha, Sudesh Rani, Gur Mandi Hanumangarh Town Hanumangarh Rajasthan, A/c No:-045505000242 Shree Radhey Fashion, Beena Pareek, Anil Kumar Pareek, 105, Rajeev Nagar, Vidhyadhar Nagar, Jaipur Rajasthan, A/c No:-065005501667 &	Co-Borrower/ Guarantor/ (Loan Account Number) & Address A & G Enterprises Abdul Gaffar & Ashok Kumar Choudhary, Geeta Devi, Sahika Parveen, Near Obc Bank Lanka Gate Sicor Road Bundi Rajasthan, A/c No:-685905601608 & 685955015018 G S Udhyog, Ashwani Bagpatia, Mamta Devi Bagpatiya, New Mandi Bharatpur, Bharatpur Rajasthan, A/c No:-685705600195 Hind Traders, Mamta Dhoka, Amta Dhoka, Ashish Dhoka, Lalit Kumar Dhoka 8 Indra Colony Bani Park, Jaipur Rajasthan A/c No:-674605500961 & 674655015028 Kota Vastralaya, Mohammed Zishan, Waseem Kadari, Mehfooz Alam, Abdul Azeez, Bheru Gali, Rampura Bazar, Kota, Rajasthan Kota, Rajasthan A/c No:-688305112529 M/S Sri Balaji Agency, Veena Devi, Sandeep Laroiya, Shop No. 82, Old Dhan Mandi Raisinghnagar Sriganganagar Rajasthan, A/c No:-175005003146 Midha Tea Traders, Ajay Pal Midha, Sudesh Rani, Gur Mandi Hanumangarh Town Hanumangarh Rajasthan, A/c No:-045505000242 Shree Radhey Fashion, Beena Pareek, Anil Kumar Pareek, 105, Rajeev Nagar, Vidhyadhar Nagar, Jaipur Rajasthan, A/c No:-065005501667 & Of Secured Asset / Asset to be Enforced Asset to be Enforced Plot No. I-j-9, Vikas Nagar, Bundi-323001 Plot No. 18E, Nai Mandi, Bharatpur Rajasthan Plot No- 19-806, Flat No. 301, Malviya Nagar Jaipur Rajasthan Whoto- 688305112529 Plot No. K-71, Behind CWC, Indra Prastha Steel Yard, Road No. 1, Kota, Rajasthan Murabba No. 26, Kila No. 3/2, Raisingh Nagar, Sri Ganganagar Rajasthan No.16, Pathar No.133/274, Kin No.19, 20, Hanumangarh Rajasthan Property No-3/257/15, Naya Kheda Sector No.3, Vidhyadhar Nagar, Jaipur,	Co-Borrower/ Guarantor/ (Loan Account Number) & Address A & G Enterprises Abdul Gaffar & Ashok Kumar Choudhary, Geeta Devi, Sahika Parveen, Near Obc Bank Lanka Gate Sicor Road Bundi Rajasthan, A/c No:-685905601608 & 685955015018 G S Udhyog, Ashwani Bagpatia, Mamta Devi Bagpatiya, New Mandi Bharatpur, Bharatpur Rajasthan, A/c No:-685705600195 Hind Traders, Mamta Dhoka, Amta Dhoka, Ashish Dhoka, Lalit Kumar Dhoka 8 Indra Colony Bani Park, Jaipur Rajasthan A/c No:-674605500961 & 674655015028 Kota Vastralaya, Mohammed Zishan, Waseem Kadari, Mehfooz Alam, Abdul Azeez, Bheru Gali, Rampura Bazar, Kota, Rajasthan Kota, Rajasthan A/c No:-688305112529 M/s Sri Balaji Agency, Veena Devi, Sandeep Laroiya, Shop No. 82, Old Dhan Mandi Midha Tea Traders, Ajay Pal Midha, Sudesh Rani, Gur Mandi Hanumangarh Town Hanumangarh Rajasthan, A/c No:-045505000242 Sent/ Outstanding as on Date of Notice Plot No. I-j-9, Vikas Nagar, Bundi-323001 Plot No. 18E, Nai Mandi, Bharatpur Rajasthan Solo7/2022 Rs.81,60,544/- Rs.7,45,889.63/- Rajasthan 30/07/2022 Rs.41,18,705/- Rs.7,17,476.69/- Rs.1,18,100/- Rs.1,18,100/- Rs.1,18,100/- Rs.1,18,100/- Rs.

The steps are being taken for substituted service of notice. The above borrower/s and/or their guarantors (as applicable) are advised to make the payments of outstanding within period of 60 days from the date of publication of this notice else further steps will be taken as per the provisions of Securitisation and Re-construction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002.

Date: September 09, 2022 **Authorized Officer** Place : Rajasthan (Jaipur) ICICI Bank Limited

Jaipur

'ईशान इंटरनेशनल लि.' की प्रमुख ताकत है दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों में उपस्थित

दीर्घाविध निवेश पर अच्छा फायदा होने की संभावना

बिजनेस रेमेडीज/जयपुर। दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों जैसे कि फिलीपींस, वियतनाम और इंडोनेशिया ने काफी अच्छी प्रगति कर रहे हैं। इन देशों के साथ भारत के कारोबारी रिश्ते भी काफी अच्छी गति से आगे बढ़ रहे हैं। नई दिल्ली कंपनी इंटरनेशनल लि.' प्रमुखता से दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों में हैवी इंजीनियरिंग इक्विपमेंट, International प्लांट एवं मशीनरी का निर्यात कर रही है। कंपनी द्वारा प्रस्तावित संयुक्त उपक्रम को

फंडिंग या अधिग्रहण के लिए व

कार्यशील पूंजी जुटाने के लिए

एनएसई इमर्ज प्लेटफॉर्म पर

आईपीओ लाया जा रहा है। कंपनी

का आईपीओ आज ख़ुल रहा है और

निवेशक 14 सितम्बर, 2022 तक

आईपीओ में आवेदन कर सकते हैं।

प्रोजेक्ट्स का कॉन्ट्रेक्ट लेती और

उन्हें स्थापित करती है। कंपनी का

फोकस शूगर प्लांट, गुड़ प्लांट,

फॉर्मास्यूटिकल प्लांट, हाइड्रोपॉवर

प्लांट और पॉल्यूशन कंट्रोल सिस्टम्स

इरेक्शन/इंस्टालेशन, कमिशनिंग

एवं ऑपरेशनल ट्रेनिंग मुहैया कराने

पर है। इसके साथ ही कंपनी हाइड्रो

यह करती है कंपनी: कंपनी

ऑफिस स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है। ईशान इंटरनेशनल

फॉर्मास्यूटिकल्स एवं पॉल्यूशन कंट्रोल सिस्टम्स संबंधित सभी गतिविधियों में हाई-एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड सॉल्यूशन्स मुहैया करवा रही है। कंपनी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में विशेषकर फिलीपींस, वियतनाम और इंडोनेशिया के प्रमुख ग्राहकों को हाई-एंड हैवी इंजीनियरिंग इक्विपमेंट मुहैया करवा रही है। कंपनी ने फिलीपींस, इंडोनेशिया, हनोई(वियतनाम),हों ची मिन्ह सिटी (वियतनाम) में ऑफिस स्थापित किए हैं। वहीं केन्या में

करती है। वित्त वर्ष 2022 में हैवी मशीनरी की बिक्री से 11.02 करोड लिमिटेड के उत्पादों में ईएसपी, गुड़ रुपये, इंडस्ट्रीय फेब्रिक से 5.57 प्लांट एंड इक्विपमेंट, केन क्रशिंग

> कंपनी की प्रमुख ताकतः दक्षिण-पूर्व के देशों फिलीपींस, वियतनाम और इंडोनेशिया में कंपनी की उपस्थित कंपनी की प्रमुख ताकत है।

वित्त वर्ष 2021-22 में कंपनी का प्रशासनिक एवं बिक्री खर्च 1.77 करोड़ रुपये से बढ़कर 2.15 करोड़ रुपये हो गया,क्योंकि कंपनी ने आक्रामक मार्केटिंग रणनीति अपनाई है। इससे कंपनी को भविष्य में अच्छा

वर्ष 2022 में कंपनी ने ऑपरेटिंग गतिविधयों से पॉजिटिव कैश फ्लो 1.12 करोड़ जनरेट किया है जो कि कंपनी का अच्छा वित्तीय प्रदर्शन

फायदा होने की संभावना है। वित्त

दर्शित करता है। कंपनी ने खंय को विविध प्रकार की इंडस्ट्रीज में डायवर्सिफिकेशन किया है जो कि कंपनी के राजस्व को भविष्य में स्थायित्व प्रदान करेगा। कंपनी के प्रबंधन में अनुभव और विशेषज्ञों का अच्छा मिश्रण है। कंपनी के पास मजबूत ऑर्डर बुक है। कंपनी का फोकस क्वालिटी के साथ किफायती दरों पर उत्पाद मुहैया कराने के साथ समय पर उपलब्ध कराने पर भी है। ग्राहक संतुष्टि के माध्यम से कंपनी ने विदेशी ग्राहकों के साथ अच्छे कारोबरी संबंध स्थापित किए हैं। कंपनी ने उचित स्तर पर सप्लाई एवं लॉजिस्टिक चैन स्थापित किया है। कंपनी ने महज 2.20 करोड़ रुपये का लोंग दर्ज ऋण लिया हुआ है। इसलिए कंपनी

कंपनी के आईपीओ के संबंध में 'ईशान इंटरनेशनल लि.' का आईपीओ आज खुलकर एनएसई इमर्ज प्लेटफॉर्म पर खुलकर 14 सितम्बर,2022 को बंद होगा। कंपनी द्वारा १० रूपये फेसवेल्यू के 2280000 शेयर 80 रुपये प्रति शेयर के भाव से जारी कर 18.24 करोड़ रुपये जुटाए जा रहे हैं। कंपनी के आईपीओ का मार्केट लॉट साईज 1600 शेयरों का है यानि कि निवेशकों को कंपनी का एक लॉट खरीदने के लिए 1.28 लाख रुपये निवेश करने होंगे। आईपीओ में 50 फीसदी शेयर एनआईआई कैटेगरी और 50 फीसदी शेयर रिटेल कैटेगरी के निवेशकों के लिए आरक्षित किए गए हैं। कंपनी के आईपीओ का प्रबंधन प्रमुख लीड मैनेजर कंपनी

फर्स्ट ओवरसीज केपिटल लिमिटेड

पर अधिक कर्ज बोझ भी नहीं है।

कंपनी के प्रवर्तकों का अनुभव

कंपनी प्रवर्तक शांतनु श्रीवास्तव को उनके योगदान के लिए उन्हें कई पुरस्कार भी हासिल हुए हैं। उन्होंने



आज खुलकर 14 सितम्बर को बंद होगा आईपीओ

'शातंनुं'स ३० ईयर रिलेशनशिप ऑफ लव रेस्पेक्ट एंड कॉर्पोरेशन विथ वियतनाम' किताब लिखी है जो कि अक्टूबर,2013 में हनोई, वियतनाम में लांच हुई थी। इसके साथ ही उन्होंने डॉलर852 सपनों से सच तक किताब भी लिखी है। उन्होंने वियतनाम

को भारत के बिजनेस मैप पर ला दिया है। उनके व्यापक अनुभव एवं विशेषज्ञता का लाभ ईशान इंटरनेशनल लिमिटेड को भविष्य में काफी ज्यादा मिलने की संभावना है।

SRG HOUSING FINANCE LIMITED

Registered office: 321 S.M. Lodha Complex, Near Shastri Circle, Udaipur Rajasthan 313001, CIN: L65922RJ1999PLC015440, Ph.:: 0294-2561882, 2412609, Email: info@srghousing.com, Website: www.srghousing.com Corrigendum to Notice of Extra Ordinary General Meeting

This has reference to our Notice dated August 31, 2022 and newspaper advertisement published on September 4, 2022 convening the Extra-Ordinary General Meeting of the embers of the Company on Monday September 26, 2022 at 12:15 pm at the Head Office of the Company at 12, Opposite Paras JK Hospital, Shobhagpura, Udaipur, Rajasthar 313001 to transact the Business as set out in the notice of EGM.

The following alteration/modifications in the Notice are hereby notified through this corrigendum 1. On page 13 of the Notice under para 5, the 90 (Ninety) trading days' volume weighter verage price should be read as Rs. 153.49 per Equity Shares and the 10 (Ten) trading days' olume weighted average price should be read as Rs. 182.17 per Equity Shares.

Below para 5 following statement should be read as "the proposed allotment shall not result In change of control and is not more than 5% of the nost issue fully diluted Fourty Shares capital of the company therefore the valuation report under Regulation 166A of the SEBI ICDR) Regulation is not appliable"

Explanatory Statement for item no.1 under paragraph 18 "Other Disclosures/Undertakings,

 The Company does not have any outstanding dues to SEBI, Stock Exchanges or the depositories None of the person belonging to promoter / promoter group and proposed allotees has
previously subscribed to warrants of the Company but has failed to exercise the warrants.
 The Company has obtained the Permanent Account Numbers (PAN) of the proposed allottes.

On page 17 of the Notice Other Disclosures / Undertakings point 3 should be read as The certificate dated September 5, 2022, issued by M/s Mohit Vanawat And Associates practicing company secretaries, certifies that this preferential issue is in compliance with Chapter V of SEBI ICDR Regulations and the said report can be found on the website of the Company at the following link https://www.srghousing.com/ Datalmages/ download/ ICDR% 20Certificate%20of%20PCS.ndf

3. On page 16 of the Notice Post Issue Shareholding Structure of Individual/HUF should be read as 47.05% and pre issue shareholding structure total public shareholding should be

4. On page 19 of the Notice under Annexure A · Point A Value and Type of Transaction rent nount payable should be read as Rs. 12 Lakhs per financial year.

5. Under explanatory statement for item No. 2 following shall be added None of the Directors, Key Managerial Personnel or their relatives other than Mr. Vinod Kumar Jain, Managing Director and Mrs. Seema Jain, Director is concerned or interested in the solution set out in Item No. 2 of the Notice.

This Corrigendum to the Notice of the EGM shall form an integral part of the Notice of the EGM which has already been circulated to the shareholders of the Company and hereof the notice of EGM shall always be read in conjunction with this corrigendum. This corrigendum will also be available on the website of the Company at www.srghousing.com. And on the website of BSE at www.bseindia.com. All other contents of the EGM Notice save and except as amended / modified by this Corrigendum, shall remain unchanged

Date: 07 09 2022

For SRG Housing Finance Limited (Sd/-) Divya Kothari (Company Secretary) M.No. A57307

सेंसेक्स 659 अंक उछला

बिजनेस रेमेडीज/मुंबई। घरेलू शेयर बाजारों में दो दिनों से जारी का बृहस्पतिवार को थम गया और बीएसई सेंसेक्स 659.31 अंक के उछाल के साथ बंद हुआ। वैश्विक बाजारों में मजबूती और बैंक, सूचना प्रौद्योगिकी तथा वाहन कंपनियों के शेयरों में लिवाली से बाजार में तेजी आई।

तीस शेयरों पर आधारित सेंसेक्स 659.31 अंक यानी 1.12 प्रतिशत की मजबूती के साथ 59,688.22 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह एक समय 683.05 अंक तक चढ़ गया था। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 174.35 अंक यानी 0.99 प्रतिशत की बढ़त के साथ 17,798.75 अंक पर बंद हुआ।विश्लेषकों ने कहा कि विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेश और कच्चे तेल की कीमतों में नरमी ने निवेशकों की धारणा को मजबूत किया। सेंसेक्स की कंपनियों में टेक महिंद्रा के शेयर में सबसे अधिक 3.23 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, भारती एयरटेल, भारतीय स्टेट बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, बजाज फिनसर्व, इंडसइंड बैंक और एशियन पेंट्स प्रमुख रूप से लाभ में रहे। दूसरी तरफ टाटा स्टील, एनटीपीसी, टाइटन, नेस्ले और पावर ग्रिड के शेयर गिरावट लेकर बंद हुए। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा, ''कच्चे तेल की कीमतों में नरमी

मयूर यूनिकोटर्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय एवं कार्य स्थलः ग्राम जैतपुरा, जयपुर-सीकर रोड, जिला जयपुर-303704 (राज.) भारत बूरभाषः ९१-१४२३-२२४००१, फैक्सः ९१-१४२३-२२४४२०

सीआईएन नंबर: L18101RJ1992PLC006952

डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने से पहले सामान्य सूचना

रतब् द्वारा सूचित किया जाता है कि मयूर यूनिकोटर्स लिमिटेड के निम्नलिखित शेयर प्रमाण पत्र खो गए हैं या गुम हो गए हैं जैसा कि रजिस्ट्रार और शेयर

21943081-21944680 १६०० (फेसवेल्यू ५ रूपये प्रति/-) कोई भी व्यक्ति जिसका उक्त शेयरों में दावा या ग्रहणाधिकार या हित है और उपरोक्त के बदले में ड्रुप्लीकेट शेयर प्रमाण पत्र जारी करने पर कोई आपत्ति है, से अनुरोध है कि वह तारीख से 15 दिनों के भीतर मजिस्ट्रेट द्वारा विधिवत सत्यापित एक हलफनामे के माध्यम से, इस नोटिस के दावे या ग्रहणाधिकार या

ब्याज की प्रकृति या डुप्लिकेट शेयर प्रमाण पत्र के उक्त मुद्दे पर आपत्ति को दर्शाते हुए ऊपर उक्षिखित पंजीकृत कार्यालय में कंपनी को इसकी सूचना दें। अन्यथा कंपनी डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के लिए आगे बढ़ेगी।

मयूर यूनिकोटर्स लिमिटेड के लिए

स्थानः जैतपुरा, जयपुर

पवन कुमावत

दिनांक:-02/09/22

कार्यालय उप वन सरंक्षक, जयपुर

ग्रास फार्म नर्सरी, खातीपुरा रोड, जयपुर Email ID: dfosouthipr@gmail.com

Phone No. 0141-2350061

क्रमांक एफ () उपसंज/स्टोर/2022-23/6993

खुली निविदा विज्ञप्ति

सर्वसाधारण विशेषकर वेल्डमेश जाली का कार्य करने वाली फर्मों/व्यक्तियों/ठेकेदारों/संस्थाओं को सुचित किया जाता है कि इस वन मण्डल के अधीन रेंज, बस्सी में वॉसकों स्थित लव-कुश वाटिक हेतु चैनलिंक जाली की आवश्यकता है, जिसके क्रय हेतु खुली-निविदा विज्ञप्ति दिनांक १२.०९.२०२२ आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/ व्यक्ति / ठेकेदार/संस्था अपनी दरें बंद लिफाफे में दिनांक 12.09.2022 को 2.00 बजे तक कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है। प्राप्त निविदाएं उसी दिन दोपहर 3.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेगी:-

	. , . ,					
क्र.	वेल्डमेश जाली का विवरण	वेल्डमेश जाली	अनुमानित	अमानत	निविदा शुल्क	कार्य की
सं.		की अनुमानित	राशि रू.	राशि रू.	राशि रू.	अवधि तक
		मात्रा				
1.	वेल्डमेश जाली की साईजः-	१४०० रनिंग	2.35 लाख	4700/-	500/-	31.03.2023
	Galvanised Weldmesh	मीटर				
	Jaali 60 to 80 GSM,					
	12 Gauge, Cross					
	Section 4"x4" Width					
	6 feet.					
_	0 %)	١.		1	١ ٥	0 3/1 3

1. निविदा प्रपत्र व शर्तें राज्य लोक उपापान पोर्टल sppp.rajasthan.gov.in से डाउनलोड की जा सकती है। डाउनलोड कर निविदा प्रस्तुत किये जाने पर निविदा शुल्क 500/- का बैंक ड्राफ्ट/डी.डी.उप वन संरक्षक जयपुर के नाम बनवाकर निविदा के साथ कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

2. बोली प्रतिभूति (Bid security) 4700/- रू. होगी, जो बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक/ डी.डी. के रूप में उप वन सरंक्षक जयपुर के नाम बनवाकर निविदा के साथ कार्यालय में प्रस्तुत करनी होंगी। बोली प्रतिभूति राशि के बिना प्राप्त निविदा पर

3. निविदा में अंकित दरें समस्त करों (जी.एस.टी) आदि को शामिल करते हुए होगी।

४. दरें ३१.०३.२०२३ तक मान्य होगी।

D.I.P.R./C/11468/2022

UBN No-FOR2223GSOB00470

(मोहित गुप्ता) आई.एफ.एस

उप-वन-संरक्षक

इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 की घारा 91 के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि कंपनी व सदस्यों का रजिस्टर और शैयर ट्रांसफर बुक शनिवार, 24 सितंबर 2022 से शुक्रवार, 30 सितंबर 2022 (दोनों दिन शामिल) के उद्देश्य के लिए बंद रहेगा। वार्षिक आम बैठक। कंपनी अधिनियम, 2013 की घारा 108 के प्रावधान के अनुपालन में कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 वे प्राथ पठित, रोबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम **44** सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि:

इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या एजीएम में मतदान की पात्रता निर्धारित करने की कट-ऑफ तिथि शुक्रवार 23 सितंबर, 2022 है:

🗷 🐃 युनिवर्सल ऑटोफाउंड्री लिमिटेड पंजीकृत कार्यालयः वी 307, रोड नं. 16, वी.के.आई. एरिया, जयपुर 302 013 इन्डिया दूरभाषः +91 141 2460 289, ई-मेलः cs@ufindia.in वेबसाइटः www.ufindia.com CIN: L27310RJ2009PLC030038; GSTIN: 08AABCU1171A1ZV 13वीं आम बैठक, रिमोट ई-वोटिंग और बुक क्लोजर की सूचना

तद्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी की 13वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शुक्रवार 30 सितंबर 2022 को शाम 05.00 बजे रेडिसन होटल जयपुर सिटी सेंटर, खासा कोठी सकेल, एम आई रोड यपुर, राजस्थान -302001 में एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसाय को लेन-देन करने के लिए आयोजित की जाएगी। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट एजीएम की सुचना के सार सदस्यों को ई-मेल कर दी गई है। उपस्थित होने और मतदान करने का हकदार सदस्य स्वयं के स्थान प उपस्थित होने और मतदान करने के लिए प्रांक्सी (ओं) को नियुक्त करने का हकदार है और प्रांक्सी व सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है। विधिवत पूर्ण, मुहर लगी और हस्ताक्षरित प्रॉक्सी फॉर्म, प्रभावी होने व

लिए, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में बैठक के निधारित समय से कम से कम अड़तालीस घंटे पहले पहुंच

रिमोट ई-बोर्टिंग सोमवार, 26 सितंबर, 2022 (सुबह 9 बजे IST) से शुरू होगी,

रिमोट ई-वोटिंग गुरुवार, 29 सितंबर, 2022 (शाम 5.00 बजे IST) को समाप्त होगी।

iv) इसके बाद KFin टेक्नॉलॉजीज लिमिटेड द्वारा ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा औ इसलिए गुरुवार, 29 सितबर, 2022 शाम 5:00 बजे के बाद ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।

कोई भी व्यक्ति जो बेठक की सूचना के प्रेषण के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑप तिथि यानी शुक्रवार, 23 सितंबर, 2022 को शेयर धारण करता है, यह KFin क evoting@kfintech.com पर या कंपनी को cs पर लिख सकता है। ufindia.in यूजर आईडी औ पासवर्ड के लिए अनरोध कर रहा है। यजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने की विस्तृत प्रक्रिया भी बैठव की सचना में दी गई है जो कंपनी की वेबसाइट यानी www.ufindia.com और बीएसई की वेबसाइ www.bseindia.com और कैएफआईएन टेक्नीलॉजीज लिमिटेंड की वेबसाइट याने www.kfintech.com पर उपलब्ध है। यदि शेयरधारक पहले से ही रिमोट ई-वोटिंग के लिए पंजीकृत है तो वह वोट डालने के लिए अपनी मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकता है।

ए) सदस्यों के वोटिंग अधिकार शुक्रवार, 23 सितंबर, 2022 को कट-ऑफ तिथि के अनुसार कंपने

की चुकता इकिटी शेयर पूंजी के उनके शेयरों के अनुमात में होंगे, बी) एक सदस्य बीटिंग के केवल एक तरीके का विकल्प चुन सकता है, यानी रिमोट ई-बोटिंग या एजीएम में बोटिंग के माध्यम से। यदि कोई सदस्य दोनों तरीकों से बोट डालता है, तो रिमोट ई-बोटिंग के माध्यम से किया गया बोट मान्य होना और एजीएम में बोट को अमान्य माना जाएगा

सी) रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से बोट डालने वाले सदस्य भी एजीएम में शामिल हो सकते हैं हालांकि, वे सदस्य एजीएम के दौरान दोबारा बोट डालने के हकदार नहीं हैं।

डी) मतपत्र/मतदान पत्र (भौतिक मतदान) की सुविधा एजीएम में उपलब्ध कराई जाएगी और बैठक भाग लेने वाले सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है, वे मौतिक मतदान व माध्यम से बैठक में भाग ले सकेंगे।

ई) एक व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में या शेयर ट्रांसफर एजेंट के रजिस्टर में कट-ऑप तिथि के अनुसार दर्ज किया गया है, केवल एजीएम से वहले और एजीएम के दौरान रिमोट ई-वीटिंग के माध्यम से ई-वोटिंग सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा।

एजीएम की सूचना कंपनी की वेंबसाइट www.ulindia.com और केएफआईएन टेक्नोलॉजीज लिमिटेंट वेबसाइट www.kfintech.com पर भी उपलब्ध है,

iii) इलेक्टॉनिक माध्यम से मतदान के संबंध में किसी भी प्रश्न और/या शिकायत के मामले में, सदस्र डाउनलोड अनुभाग में ड्रॉपडाउन मेनू के माध्यम से उपलब्ध सहायता और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश् अनुभागों / ई-योटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका का सदर्भ ले सकते हैं। ई-वोटिंग के लिए KFin की वेबसाइट: https://evoling.kfintech.com या नीचे दिए गए विवरण के अनुसार KFin से संपर्क करें शेयरघारकों से अनुरोध है कि ई-वॉटिंग संबंधी शिकायतों के समाधान के लिए निम्नलिखित संपर्य

श्री राजकुमार काले, वरिष्ठ प्रबंधक - कॉर्पोरेट रजिस्ट्री, केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, (पूर्व केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के रूप में जाना जाता है), रोलेनियम टॉवर-बी, प्लॉट नंबर 3 और 32, वित्तीय जिला, नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद - 500032, तेलंगाना। फोर नंबर +91 40 6716 1616, टोल-फी नंबर: 1800 3094 001, ईमेंल einward.ris@kfinlech.com

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, सदस्यों से यह नोट करने का अनुरोध किया जाता है कि. यदि आपने अपना ईमेल पता और मोबाइल नंबर पंजीकृत नहीं किया है, जिसमें पता और वैंक विवरण शामिल हैं, तो कृपया इलेक्ट्रॉनिक में रखे शेयरों के मामले में डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ संपर्क और सत्यापन/अपडेट कर सकते हैं। फॉर्म और कंपनी के रजिस्ट्रार और शेवर ट्रांसफर एजेंट केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के साथ भौतिक रूप में शेयरों के मामले में। वैकल्पिक रूप से सदस्य ईमेल आईडी einward.ris@kfintech.com पर ईमेल पता, मोबाइल नंबर, स्व-सत्यापि पैन प्रति और क्लाइंट मास्टर कॉपी प्रदान करने वाले अनुरोध पत्न की हस्ताक्षरित प्रति की स्कैन की गई प्रति के साथ एक ई-मेल अनुरोध भेज सकते हैं। वार्षिक रिपोर्ट, एजीएम की सूचना और ई-बोटिंग निर्देशों को भेजने के लिए भौतिक फोलियों के मामले में इलेक्ट्रॉनिक फोलियों और शेयर प्रमाण पत्र की प्रति के मामले में।

स्थानः जयपुर, इण्डिया दिनांक: 08.09.2022 युनिवर्सल ऑटोफाउंडी लिमिटेड हस्ताक्षर /-रविना जैन

ढाबरिया पॉलीवुड लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय बी-९ डी(1) मालवीया औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर-302017

दूरभाष नं. 91-141-4057171, फेक्सः 91-141-2750814 ई-मेल आईडी: cs@polywood.org , वेबसाइट: www.polywood.org (CIN: L29305RJ1992PLC007003)

सूचना एतढ़ द्वारा सचित किया जाता है कि कंपनी की 30वीं वार्षिक साधारण सभा (''एजीएम'') शकवार, 30

सितम्बर,२०२२ को प्रातः ११:०० बजे आईएसटी से वीडियो कांफ्रेंसिंग (''वीसी'')/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (''ओएवीएम'') की सुविधा के माध्यम से कंपनी अधिनयम, 2013 तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों तथा सेबी (सूचीयन दायित्वों तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के साथ कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी सर्क्युलर नं. 14/2020, 17/2020, 20/2020 02/2021, 19/2021, 21/2021 तथा 02/2022 तिथि 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल 2020, 5 मई 2020. 13 जनवरी 2021. 08 दिसंबर 2021. 14 दिसंबर 2021 तथा 5 मई 2022 क्रमशः (''एमसीए सर्क्युलर'') तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड द्वारा जारी सर्क्युलर सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2021 /11 तिथि 15 जनवरी 2021 तथा सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2022 /62 तिथि 13मई 2022 (''सेबी सर्क्युलर'') के अनुसार लागू होने वाले प्रावधान के अनुपालन में, किसी स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थित के बिना आमंत्रित की गई है।

एमसीए सर्क्युलर अथवा सेबी सर्क्युलर के अनुसार, 30वीं एजीएम की सूचना, 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के अंकेक्षित वित्रिय विवरणों सहित 2021-2022 वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट(''वार्षिक रिपोर्ट'') उन सभी सदस्यों को ईमेल के द्वारा भेज दी गई है जिनके ईमेल पते कंपनी के पास या उनके सम्बन्धित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंटस के पास पंजीकृत है। एजीएम की सूचना तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 की वार्षिक विवरण के प्रेषण कार्य को सितम्बर 08, 2022 को पूरा कर लिया गया है। उपरोक्त सभी प्रपत्र कंपनी की वेबसाइट www.polywood.org बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com तथा सेंट्रल डिपॅाजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है।

कंपनी अधिनियम २०१३ की धारा १०८ के प्रावधानों तथा कंपनी (प्रबंधन एंव प्रशासन) नियम, २०१४ के नियम २० यथा संशोधित और सेबी (सूचीकरण दायित्व एंव आवश्यक उद्घोषणा) विनियम २०१५, के विनियम 44 के तहत कंपनी अपने सदस्यों को इलेक्ट्रानिक वोटिंग प्रणाली (रिमोट ई-वोटिंग) के माध्यम से एजीएम में पारित होने वाले प्रस्तावित प्रस्तावों पर इलेक्ट्रानिक मतदान करने की सुविधाएं प्रवान कर रही है। कंपनी ने इलेक्ट्रानिक ई-वोटिंग सुविधा प्रवान करने के लिये सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (डॉडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) को नियक्त किया है।

रिमोट ई-वोटिंग मगंलवार, सितम्बर 27,2022 को प्रातः 9:00 बजे आरम्भ होगी तथा गुरूवार, सितम्बर २९, २०२२ को सांय ५:०० बजे समाप्त होगी। रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति इस तिथि और समय के बाद प्रदान नहीं की जायेगी। एजीएम में इलेक्ट्रानिक माध्यम से मतदान करने के लिये पात्रता निर्धारण हेतु कट ऑफ तिथि सितम्बर 23, 2022 है। रिमोट ई-वोटिंग के विस्तृत दिशा-निर्देश एजीएम की सुचना के नोट न.19 में दी गई है।

ऐसे सदस्य जिन्होंने 30 वीं एजीएम से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर दिया हो वें सदस्यगण भी 30वीं एजीएम में वीसी/ओएवीएम के माध्यम से भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें फिर से मतदान करने का अधिकार नहीं होगा।

कोई भी व्यक्ति जिसने शेयरों का अधिग्रहण किया है और एजीएम की सूचना के प्रेषण के बाद और कट-ऑफ तिथि से पहले कंपनी का सदस्य बन गया है, वह एजीएम की सूचना में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करते हुए एजीएम की तिथि पर इलेक्टॉनिक रूप से या तो रिमोट ई-वोटिंग या ई-वोटिंग प्रणाली द्वारा अपने वोट का प्रयोग करने का हकदार होगा

पूछताछ के लिये सदस्यगण www.evotingindia.com के सहायता खंड में अक्सर पूछे जाने प्रश्न खंड (''एफएक्यू'') तथा ई-वोटिंग मैन्युअल पर देख सकते है अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई-मेल कर सकते है अथवा 1800225533 पर सम्पर्क कर सकते हैं अथवा कंपनी सचिव श्री मान स्पर्श जैन से बी-9 डी(1) मालवीया औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर-302017, दूरभाष न. 0141-4057171, ई-मेल आईडी cs@polywood.org पर संपर्क कर सकते हैं। कंपनी अधिनियम २०१३, की धारा ९१ तथा लागू नियम और सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं आवश्यक उद्घोषणा) विनियम २०१५ के अनुसार कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर तथा अंहस्तांतरण. शनिवार सितम्बर २४, २०२२ से, शुक्रवार सितम्बर ३०,२०२२ (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेगी।

श्री मान मनीष संचेती,प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव, (FCS 7972, CP 8997) को उचित रूप तथा पारदर्शिता से ई-वोटिंग प्रक्रिया को जांचने के लिए संवीक्षक (Scrtuniser) के तौर पर नियुक्त किया गया है। रिमोट ई-वोटिंग के नतीजे की घोषणा 01 अक्टूबर 2022 को अथवा उससे पूर्व की जायेगी। संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम कंपनी की वेबसाईट www.polywood.org और सीडीएसएल की वेबसाईट www.cdslindia.com पर उपलब्ध होगा और इसे स्टॉक एक्सचेंज (BSE Limited) को भी सूचित किया जाएगा, जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं।

कृते ढाबरिया पॉलीवुड लिमिटेड स्पर्श जैन कम्पनी सचिव सदस्यता नंबर:- एसीएस ३६३८३

स्थानः जयपुर

दिनांकः 08.09.2022

DIN: 00345009

बाजार में भी मजबूती आई।''

स्टेशन रोड, जयपुर, राजस्थान - 302006 IN, दूरभाष नं. 0141-2361794, ई-मेल: cs@gicl.co. कंपनी अधिनियम, २०१३ की धारा ९१ और उसके तहत लागू नियमों और सेबी (सूचीकरण दायित्व

ग्लोब इंटरनेश्नल कैरियर्स लिमिटेड के लिए

सुभाष अग्रवाल

अनुपालना में एक सामान्य स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना शुक्रवार, 30 सितंबर. २०२२ को अपराह्न ०३:०० बजे (आईएसटी) आयोजित की जाएगी। 12वीं एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें 31 मार्च, २०२२ को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय विवरण शामिल हैं (''वार्षिक रिपोर्ट'') उन सभी को ई-मेल द्वारा भेजे जाएंगे सदस्य. जिनके ई-मेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास एमसीए परिपत्र (त्रों) और सेबी परिपत्र के अनुसार पंजीकृत हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए

Globe

ग्लोब इंटरनेशनल कैरियर्स लिमिटेड

CIN: L60232RJ2010PLC031380

पंजीकृत कार्यालयः 301-306, प्रकाश दीप कॉम्प्लेक्स, मयंक ट्रेड सेंटर के पास,

स्टेशन रोड जयपुर, राजस्थान - ३०२००६

ईमेल आईडी - cs@gicl.co , दूरभाष नंबर 0141-2361794, 2368794

वेबसाइट- www.gicl.co

12वीं वार्षिक आम बैठक का नोटिस और रिमोट ई-वोटिंग सचना

12वीं वार्षिक आम बैठक (''एजीएम'') वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (''वीसी'') या अन्य ऑडियो-विजुअल

मीन्स (''ओएवीएम'') सुविधा के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधान और उसके

तहत बनाए गए नियमों और सेबी (सूचीकरण दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम,

2015 संपठित सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020, 17/2020, 20/2020,02/2021, 21/2021

और 2/2022 दिनांकित 08 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 05 मई, 2020, 13 जनवरी,2021,

14 दिसंबर 2021 और 05 मई ,2022 क्रमशः कॉर्पोरेट मामलात मंत्रालय (''एमसीए परिपत्र'') और

भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड ('' सेबी परिपत्र'') द्वारा दिनांकित 12 मई 2020 को जारी परिपत्र

संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 दिनांकित 15 जनवरी, 2021 को

जारी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/202/11 और दिनांकित 13

मई.२०२२ को जारी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/२०२२/६२ की

एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण 08 सितंबर, 2022 को पूरा कर लिया गया है। उपरोक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट यानी www.gicl.co, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट यानी www.nseindia.com और सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध हैं। नोटिस की भौतिक प्रति ,12 वीं एजीएम और सब्स्यों को वार्षिक रिपोर्ट एमसीए परिपत्र (त्रों) को भेजने की आवश्यकताएं उपरोक्त उल्लिखित सेबी परिपत्रों की अनुपालना में हटा दी गई हैं।

डिपॉजिटरी सर्विस (इंडिया) लिमिटेड (''सीडीएसएल'') के ई-वोटिंग सिस्टम (''रिमोट ई-वोटिंग'') के माध्यम से 12वीं एजीएम की सूचना में निर्धारित सामान्य व्यवसाय पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है किः 1. रिमोट ई-वोटिंग मंगलवार, 27 सितंबर, 2022 को सुबह 09:00 बजे (आईएसटी) शुरू होगी

कट-ऑफ तारीख यानी शुक्रवार, 23 सितंबर, 2022 को शेयर रखने वाले सब्स्य, सेंट्रल

और गुरुवार, 29 सितंबर, 2022 को शाम 05.00 बजे (आईएसटी) पर समाप्त होगी। रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति उक्त तिथि और समय के बाद नहीं दी जाएगी। 2. कोई भी व्यक्ति जो ईमेल द्वारा 12वीं एजीएम की सूचना भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बनता है और कट-ऑफ तारीख को शेयर रखता है, www.evotingindia.com पर एक अनुरोध भेजकर लॉगईन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि, यदि रिमोट ई-वोटिंग के

लिए सीडीएसएल के साथ पहले से ही पंजीकृत है तो मौजूबा यूजर आईडी और पासवर्ड का

उपयोग वोट डालने के लिए किया जा सकता है। सदस्य ध्यान दें कि: क) मतदान के लिए उक्त तिथि और समय के बाद सीडीएसएल द्वारा ई-वोटिंग अक्षम कर दी जाएगी। एक बार सबस्य द्वारा संकल्प पर वोट डालने के बाब, सबस्य एजीएम के दौरान

ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से अपना वोट दोबारा डालने का हकदार नहीं होगा। ख) जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे भी वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से अपना वोट दोबारा डालने के हकदार नहीं होंगे। ग) जो सबस्य 12वीं एजीएम में भाग ले रहे हैं और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट

नहीं डाला है, वे 12वीं एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से अपना वोट डालने घ) जिस व्यक्ति का नाम कट-ऑफ तिथि के अनुसार सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभार्थी स्वामी के रजिस्टर में दर्ज है, केवल वें ही वीसी/ओएवीएम सुविधा और 12वीं एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से 12 वीं एजीएम में भाग लेने के लिए रिमोट

ड.) चूंकि एजीएम वीसी के माध्यम से आयोजित किया जाएगा, एमसीए परिपत्रों के अनुसार

ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगें।

प्रॉक्सी की नियुक्ति की कोई आवश्यकता नहीं होगी, तब्नुसार सब्स्य द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति लागू नहीं होगी। किसी भी प्रश्न/शिकायत के मामले में, सब्स्य www.evotingindia.com के डाउनलोड अनुभाग पर उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (''एफएक्यू'') और शेयरधारकों के लिए जारी ई-वोटिंग उपयोगकर्ता पुरितका देख सकते हैं या helpdesk.evot ing@cdslindia.com पर एक ईमेल लिख सकते हैं या श्री सुभाष अग्रवाल, प्रबंध निदेशक, ग्लोब इंटरनेशनल कैरियर्स लिमिटेड, 301-306, प्रकाश दीप कॉम्प्लेक्स, मयंक ट्रेड सेंटर के पास,

और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, २०१५ के नियम ४२ के अनुपालन में कंपनी के सबस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक्स शुक्रवार, 23 सितंबर, 2022 से गुरुवार, 29 सितंबर, 2022 (दोनों दिन सिम्मिलत) बंद रहेगी।

प्रबंध निदेशक

इक्विपमेंट, मिल चीक्स, गियर बॉक्स, रोप कपलिंग्स, रोपलेस ऑटोमेशन इक्विपमेंट, कम्प्लीट रोलर्स. बेयर शेल्स. हैमर टिप्स. शाफ्ट्स, जूस रिंग्स, फाइब्राइजर ,

सहायक उपकरण, ग्रुविंग दूल्स, टैबलेटिंग मशीन, पाउडर फिलिंग लाइन, लिक्विड फिलिंग लाइन, लैब उपकरण, स्टरलाइजिंग टनल, वाशिंग मशीन, एएचयू, फिल्टर, डिस्टिलेशन युनिट, स्वचालित हाई-स्पीड लेबलिंग मशीन, टैबलेट डिसॉल्युशन टेस्ट उपकरण के साथ 1500 किलोवॉट मिल डाइव के लिए एसी मोटर, शुद्ध भाप जनरेटर इत्यादि शामिल हैं। कंपनी इंडस्ट्रीयल फेब्रिक की बिक्री भी

का राजस्व प्राप्त हुआ है।

करोड़ रुपये और सर्विस एवं

कमिशन से 3.25 करोड़ रुपये

द्वारा किया जा रहा है।

वेबसाइटः www.mayuruniquoters.com, ईमेलः secr@mayur.biz

ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) द्वारा कंपनी को सूचित किया गया है:

दिनांकः ०८ सितम्बर,२०२२

और बढ़ती मुद्रास्फीति को लेकर

निवेशकों की चिंता कम होने से

वैश्विक बाजारों के साथ-साथ घरेलू

दिनांकः 09.09.2022

स्थानः जयपर